

तुरंत रिलीज के लिए

सिटी ने डिक्सी 407 स्पोर्ट्स पार्क का नाम बदलकर इमेंसिपेशन पार्क रखा और अगस्त को ब्रैम्पटन में इमेंसिपेशन मंथ के तौर पर मनाने की घोषणा की

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (1 अगस्त, 2020) – 8 जुलाई को, ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल (Brampton City Council) ने दास प्रथा के अंत के सम्मान में, डिक्सी 407 स्पोर्ट्स पार्क (Dixie 407 Sports Park) का नाम बदलकर इमेंसिपेशन पार्क (Emancipation Park) रखने का प्रस्ताव, सर्वसम्मति से पास किया था। प्रस्ताव का सुझाव, सिटी काउंसलर, शार्मेन विलियम्स (Charmaine Williams) द्वारा दिया गया था और काउंसिल के सभी मेम्बर्स ने इसकी हिमायत की थी। इस वर्ष, 1 अगस्त को इमेंसिपेशन डे (Emancipation Day) के तौर पर और अगस्त को ब्रैम्पटन में इमेंसिपेशन मंथ (Emancipation Month in Brampton) के तौर पर घोषित किया गया है।

इमेंसिपेशन पार्क

डिक्सी 407 स्पोर्ट्स पार्क का नाम बदलकर, इमेंसिपेशन पार्क रख दिया गया है। वार्ड 7 में, हाईवे 407 (Highway 407) के दक्षिण में स्थित, इस पार्क का निर्माण 2004 में हुआ था और इसमें छोटी और बड़ी सॉकर पिचें तथा क्रिकेट ग्राउंड शामिल हैं।

मेयर पैट्रिक ब्राउन और काउंसलर, अगस्त में नए पार्क के साइन बोर्ड का पर्दा उठाएंगे।

इमेंसिपेशन मंथ

1 अगस्त, इमेंसिपेशन डे है और अगस्त, ब्रैम्पटन में इमेंसिपेशन मंथ है। सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, अगस्त के पूरे माह के दौरान, कार्यक्रमों के साथ ब्रैम्पटन की विविधता का जश्न मनाने और इस महत्वपूर्ण दिन का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध है। कोविड-19 (COVID-19) को फैलने से रोकने के लिए, सारे कार्यक्रम, ऑनलाइन आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रमों की पूरी सूची के लिए, www.brampton.ca पर जाएं।

इमेंसिपेशन डे के लिए 1 अगस्त को, जमैकन इंडिपेंडेंस डे (Jamaican Independence Day) के लिए 6 अगस्त को, डोमिनिकन रिपब्लिक रिस्टोरेशन डे (Dominican Republic Restoration Day) के लिए 22 अगस्त को और ट्रिनिडैड एंड टोबैगो इंडिपेंडेंस डे (Trinidad and Tobago Independence Day) के लिए 31 अगस्त को, आभासी (वर्चुअल) तौर पर झंडा फहराया जाएगा। झंडा फहराने की सभी रस्में ऑनलाइन, [यहां \(here\)](#) उपलब्ध होंगी।

ब्रैम्पटन की ब्लैक अफ्रीकी और कैरेबियन सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सशक्तिकरण और एंटी-ब्लैक जातिवाद इकाई

10 जून, 2020 को, सिटी काउंसिल ने ब्लैक अफ्रीकी और कैरेबियन सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सशक्तिकरण और एंटी-ब्लैक जातिवाद इकाई के लिए मंजूरी दी थी। सीनियर सलाहकार (सीनियर एडवाइजर), गविनेथ चैपमैन (Gwyneth Chapman) की अगुआई में, इकाई यूनिट, इकाई की स्थापना में करेगी और इसमें मुख्य भूमिका निभाएगी। साथ ही यह ब्रैम्पटन में प्रणालीगत

जातिवाद को जड़ से खत्म करने के लिए कार्य योजना भी विकसित करेगी। लोकल सामुदायिक स्टेकहोल्डर्स द्वारा निर्देशित, इस इकाई का काम, ब्रैम्पटन के ब्लैक समुदाय की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने पर केंद्रित होगा।

सिटी द्वारा एंटी-ब्लैक जातिवाद इकाई विकसित करने के बारे में अधिक जानने के लिए या इसमें शामिल होने हेतु अपनी रुचि प्रकट करने के लिए, कृपया सिटी को AntiBlackRacismUnit@brampton.ca पर संपर्क करें।

हवाले

“पूरी दुनिया में, हम समय पर, ऐतिहासिक पल देख रहे हैं। सभी पृष्ठभूमियों के लोग, प्रणालीगत एंटी-ब्लैक जातिवाद का मुकाबला करने के लिए सामूहिक तौर पर इकट्ठे आ रहे हैं। यहां ब्रैम्पटन में, इमेंसिपेशन मंथ का सम्मान करना और सिटी के पार्क को इमेंसिपेशन पार्क का नाम देना, हमारे लिए अतीत को मान्यता देने और यह दोहराने का प्रभावशाली तरीका है कि हम ब्रैम्पटन के ब्लैक समुदाय के साथ खड़े हैं।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“ब्रैम्पटन के इतिहास में सिटी काउंसिल के लिए चुनी गई, पहली ब्लैक महिला के तौर पर, मुझे वर्ष 2019 के अक्टूबर में इमेंसिपेशन को एक पहचान बनाने के लिए प्रस्ताव पेश करने पर गर्व है। जिन हाल ही की घटनाओं ने एंटी-ब्लैक जातिवाद के बारे में हमारी समझ को बढ़ाया है, इनका अनुमान पहले नहीं लगाया जा सकता था, जब मैंने यह पहलकदमी पेश की थी। हालांकि, मुझे यह कहते हुए बहुत गर्व महसूस होता है कि ब्रैम्पटन, इमेंसिपेशन पार्क के लिए घर है। जहां तक मुझे पता है, यह कैनेडा में पहला इमेंसिपेशन पार्क है। मैं अन्य पहलकदमियां देखने के लिए उत्साहित हूं, जो एंटी-ब्लैक जातिवाद की जड़ों के बारे में, हमारी ऐतिहासिक समझ को बढ़ाएं, क्योंकि हम उन रुकावटों को दूर करने के लिए काम करते हैं, जो मनुष्य की क्षमता को नियंत्रित करती हैं।”

- शार्मेन विलियम्स (Charmaine Williams), सिटी काउंसलर, वार्ड्स 7 और 8

“पिछले माह, सिटी काउंसिल ने ब्लैक अफ्रीकी और कैरेबियन सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सशक्तिकरण और एंटी-ब्लैक जातिवाद इकाई बनाने के लिए मंजूरी दी थी, ताकि यह ब्रैम्पटन के ब्लैक समुदाय से जुड़कर, उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति को ऊंचा उठा सके। अब, केवल एक महीने के बाद ही, हम हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से को उजागर करने के लिए एक सामुदायिक पार्क का नाम बदल रहे हैं। आगे बढ़ते हुए, हम ब्लैक समुदाय की जरूरतों पर ध्यान देने के लिए, उनके साथ काम करना जारी रखेंगे।”

- पैट फोर्टिनी (Pat Fortini), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 7 और 8

“इमेंसिपेशन का सम्मान करना और ब्रैम्पटन के एक हिस्से को, इमेंसिपेशन का नाम देना, ब्रैम्पटन के लिए आगे बढ़ने के बड़े कदम हैं। लोगों के लिए इतिहास को जानना और यह समझना महत्वपूर्ण है कि कैनेडा में दास प्रथा मौजूद थी। पार्क का नाम बदलने जैसी कार्रवाईयां, मुझे पूरा यकीन दिलाती हैं कि हम ब्रैम्पटन में बहुत अधिक प्रगति करेंगे।”

- गविनेथ चैपमैन (Gwyneth Chapman), सीनियर एडवाइजर, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड एंटी-ब्लैक रेसिज़्म, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोआर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca